



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 717 राँची, गुरुवार,

26 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई, 2018

संख्या-1/पी०-102/2014 का.- 5465 -- सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री राहुल शर्मा, भा.प्र.से. (झा:1998) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ वाणिज्यकर आयुक्त, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-1/पी०-102/2014 का.- 5466 -- सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री अमिताभ कौशल, भा.प्र.से. (झा:2001) (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, राँची) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-1/पी०-102/2014 का.- 5467 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (झा:2003) को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

श्री टोप्पो अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, ग्रामीण विकास (पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० विशेष प्रमंडल), झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी०-102/2014 का.- 5468 -- अपर सचिव-सह-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री राम लखन गुप्ता, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-102/2014 का.- 5469 -- अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री रामाकान्त सिंह, भा.प्र.से. (झा:2006) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
